

@Shahjahanpurpol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य- 01.08.2019

थाना निगोही पुलिस ने शिक्षक की हत्या के दूसरे आरोपी को भी किया गिरफ्तार ।

दिनांक 22.07.2019 को ग्राम अजीजपुर थाना निगोही के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक सतेन्द्र कुमार शर्मा की दिनदहाड़े स्कूल परिसर के बाहर बुला कर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। सूचना के आधार पर थाना निगोही पर मुकदमा अपराध सं० 274/19 धारा 147/148/149/302/506/120B/34 IPC पंजीकृत किया गया। तथा विवेचना प्रभारी निरीक्षक निगोही के सुपुर्द की गयी।

डा० एस.एस. चन्नप्पा पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर द्वारा दिनदहाड़े हुयी शिक्षक की हत्या की घटना को गम्भीरता से लेते हुये अभियोग की विवेचना को गहनता से करने के आदेश दिये तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक थाना निगोही के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर फरार अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु कड़े दिशा- निर्देश दिये गये तथा गठित टीम के प्रत्येक दिवस के कार्य की समीक्षा स्वयं की जाने लगी।

स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु गहनता से सुरागरसी व पतारसी की जाने लगी तथा साथ ही मुखबिरो को अलर्ट किया गया। इसी क्रम मे आज दिनांक 01.08.2019 को सुबह मुखबिर की सूचना के आधर पर अभियुक्त आशीष गुप्ता पुत्र विजेन्द्र गुप्ता नि० मो० शिवलोकपुरी थान कंकरखेडा जिला मेरठ को बरेली मोड से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 26.07.19 को इस केस के एक आरोपी विपुल को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1- आशीष गुप्ता पुत्र विजेन्द्र गुप्ता नि० मो० शिवलोकपुरी थाना कंकरखेडा जिला मेरठ।

गिरफ्तार अभियुक्त का इतिहास:-

- 1- मु०अ०सं० 274/19 धारा 147/148/149/302/506/120B/34 IPC
- 2- मु०अ०सं० 278/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना निगोही शाह०

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त से पूछताछ करने पर अपने सह अभियुक्त विपुल सिंघल पुत्र रामकृपाल नि० ग्राम रहावती थाना बहसूमा जिला मेरठ के साथ मिलकर शिक्षक सतेन्द्र शर्मा की ग्राम अजीजपुर के प्राथमिक विद्यालय के बाहर बुलाकर गोली मारकर हत्या करना तथा पूर्व मे प्राप्त आलाकत्ल 02 अवैध तमंचों मे से एक तमंचे द्वारा हत्या की घटना कारित करना स्वीकार किया गया।

पुलिस टीम का विवरण:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री दलवीर सिंह थाना निगोही शाह०
- 2-उ०नि० श्री राकेश सिंह थाना निगोही शाह०
- 3-कां० पवन कुमार थाना निगोही शाह०
- 4-कां० महफूज आलम थाना निगोही शाह०